



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II-खण्ड 3-उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 430] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 27, 1976/आश्विन 5, 1898

No. 430] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 27, 1976/ASVINA 5, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 27th September 1976

S.O. 639(E).—Whereas the Central Government is of opinion, having regard to the smallness of the number of workers employed and to the desirability of encouraging small undertakings generally, that it would not be in the public interest to apply the provisions of sections 18-G and 25 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), to the cement plant owned by the Jammu and Kashmir Minerals Ltd., a Jammu and Kashmir Government undertaking, situated at Wuyan,

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 29-B of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby exempts the said cement plant from the operation of the provisions of the Cement Control Order, 1967, subject to the condition that any cement produced by the said cement plant should conform to the standard specified by the Indian Standards Institution for such cement,

[No. 1-5/68-Cem.]

P. K. SAXENA, Jt. Secy.

(1877)

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 1976

का० प्रा० 639 (अ).—नियोजित कर्मकारों की कम संख्या और साधारणतया छोटे उपक्रमों को प्रोत्साहन देने की बांछनीयता को ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय सरकार की राय है कि यह लोकहित में नहीं होगा कि उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 18-छ और 25 के उपबन्ध जम्मू-काश्मीर मिनरल्स लिमिटेड, जम्मू-काश्मीर सरकार का उपक्रम के स्वामित्वाधीन तूयान में स्थित सीमेंट संयंत्र को लागू किए जायें ;

अतः अब, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 29 ख की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार उक्त सीमेंट संयंत्र को सीमेंट नियंत्रण आदेश, 1967 के उपबन्धों के प्रवर्तन से इस शर्त के अधीन छूट देती है कि उक्त सीमेंट संयंत्र द्वारा उत्पादित सीमेंट भारतीय मानक संस्था द्वारा ऐसे सीमेंट के लिए विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप होगा ।

[सं० 1-5/68 सीमेंट]

डी० के० सक्सेना, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा
नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976